

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 521]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2015—पौष 7, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 17 (ई) 3287-2015-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नगरपालिका परिषद, सीहोर तथा नगर परिषद, शाहगंज आम निर्वाचन 2015 हेतु संलग्न सूची अनुसार अधिकारियों को दिनांक 1 दिसम्बर 2015 से 26 दिसम्बर 2015 तक के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. मुकाती, अवर सचिव.

विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारियों के प्रस्ताव का प्रपत्र नगरपालिका परिषद, सीहोर तथा नगर परिषद, शाहगंज आम निर्वाचन 2015

जिले का नाम	सरल क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा एवं संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

सीहोर	01	श्री अवनीश चतुर्वेदी	उप संचालक, कृषि	कृषि विभाग, सीहोर	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	02	श्री रत्नेश भदौरिया	जिला पंजीयक	कार्यालय, जिला पंजीयक, सीहोर.	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सीहोर	03	श्री बी. के. जैन	अनुविभागीय अधिकारी, घोघरा परियोजना, जल संसाधन, सीहोर.	सिंचाई विभाग, सीहोर.	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	04	श्री सुनील शर्मा	उप संचालक, पंचायत	पंचायत एवं सामाजिक न्याय, सीहोर.	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	05	श्री आर. के. प्रजापति	परियोजना संचालक, आत्मा.	कृषि विभाग, सीहोर	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	06	श्री पुरुषोत्तम जोशी	सहायक संचालक	उद्यानिकी विभाग, सीहोर	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	07	श्री अशोक कुमार शर्मा	सहायक प्रबंधक	मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सीहोर.	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	08	श्री अशोक शुक्ला	उप पंजीयक	सहकारी समिति	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	09	श्री विनय राहगंडाले	जिला परियोजना समन्वयक	जिला शिक्षा केन्द्र (सर्वशिक्षा अभियान), सीहोर.	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	10	ए. के. लेखी	सहायक शलक चिकित्सक	पशु चिकित्सा विभाग, सीहोर.	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	11	श्री ए. के. श्रीवास्तव	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	12	श्री राजीव श्रीवास्तव	सहायक संचालक	मत्स्य विभाग, सीहोर	राज्य सेवा	नगरपालिका, सीहोर का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	13	डॉ. एस. के. साकल्ले	पशु चिकित्सा अधिकारी, बुधनी.	पशु चिकित्सा विभाग, बुधनी.	राज्य सेवा	नगर परिषद, शाहगंज का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	14	श्री बी. बी. सिंह	अ.वि.अ. वन बुधनी	वन विभाग, बुधनी	राज्य सेवा	नगर परिषद, शाहगंज का संपूर्ण क्षेत्र
सीहोर	15	श्री दिलीप सिंह गुथेरिया	अ.वि.अ. लोक निर्माण विभाग, बुधनी.	लो.नि.वि. बुधनी	राज्य सेवा	नगर परिषद, शाहगंज का संपूर्ण क्षेत्र

हस्ता./-

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला सीहोर.